



डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय

करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (द्वितीय प्रति) प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र
Application form for (Duplicate Copy) Transfer Certificate

प्रति,

कुलसचिव,
डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय,
करगीरोड-कोटा, बिलासपुर (छ0ग0)
पिन-495 113

1. आवेदक का नाम :
Name of Applicant
2. पिता/पति का नाम :
F/H Name
3. माता का नाम :
Mother's Name
4. परीक्षा केन्द्र का नाम :
Name of Exam Center
5. परीक्षा का नाम :
Name of the Exam
6. अनुक्रमांक Roll No. : नामांकन क्रमांक
Enrollment No.
7. अंतिम परीक्षा वर्ष :
Year of the End Sem. Exam
8. पत्र व्यवहार का पता :
Address for Communication

मो0 नं. पिन कोड
Mob No. Pin Code

भवदीय
Regards

दिनांक:
Date :

(आवेदक के हस्ताक्षर)
Signature of the Applicant

(✓) चिन्हांकित कर संलग्न करे-
Mark & Enclose

150/- (एक सौ पचास रुपये) का बैंक ड्राफ्ट जोकि "डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा बिलासपुर (छ.ग.)" क्रमांक दिनांक संलग्न है।

Enclosed a Bank Draft of Rs. 150/- in favour of Dr. C. V. Raman University, Bilaspur (C.G.) Sr. No. Date

एफ.आई.आर. की मूलप्रति संलग्न है।

Original Copy of F.I.R. is enclosed

शपथ-पत्र की मूलप्रति संलग्न है।

Original Copy of Affidavit is enclosed

पहचान पत्र - आधार कार्ड / मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

Copy of Adhar/Voter ID as identity proof is enclosed